

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 जनवरी 2023

### प्रश्न -1

टाटा पावर निम्नलिखित में से किस शहर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित करेगा?

- A) अहमदाबाद
- B) भोपाल
- C) मुंबई
- D) पुणे

**सही उत्तर: C**

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह संयंत्र विशेष रूप से मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित हाउसिंग सोसाइटी के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा।

### प्रश्न-2

विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि क्या है?

- A) 7.7%
- B) 7.0%
- C) 6.6%
- D) 5.5%

**सही उत्तर: C**

विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.9% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% हो जाएगी।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 जनवरी 2023

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपने 'ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज' परियोजना के लिए केंद्र से मान्यता मिली है?

- A) गुजरात
- B) महाराष्ट्र
- C) राजस्थान
- D) केरल

**सही उत्तर: D**

केरल सरकार के उद्योग विभाग को हाल ही में 'ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज' परियोजना के लिए केंद्र से मान्यता मिली, जिसे नई दिल्ली में आयोजित दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर जोर' श्रेणी में सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में चुना गया था।

### प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किस देश की गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली का हाल ही में निधन हो गया है?

- A) USA
- B) इटली
- C) जर्मनी
- D) इंग्लैंड

**सही उत्तर: A**

दिवंगत एल्विस प्रेस्ली और प्रिसिला प्रेस्ली की इकलौती संतान गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। 1968 में जन्मी, लिसा मैरी ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए संगीत में अपना करियर बनाया।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 जनवरी 2023

### प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किसे कॉग्निजेंट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO) के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) जेन फ्रेजर
- B) ओलिवर जिप्सी
- C) रवि कुमार
- D) शांतनु नारायण

**सही उत्तर: C**

ITकंपनी कॉग्निजेंट ने रवि कुमार एस . को कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO) नियुक्त किया है। कॉग्निजेंट के बोर्ड के सदस्य और इंफोसिस में अपने पूर्व कार्यकाल के लिए जाने जाने वाले रवि कुमार एस . ने CEO के रूप में ब्रायन हम्फ्रीज की जगह ली है।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किस राज्य में वरिष्ठ IASअधिकारी शांति कुमारी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है?

- A) तेलंगाना
- B) तमिलनाडु
- C) हिमाचल प्रदेश
- D) असम

**सही उत्तर: A**

वरिष्ठ IAS अधिकारी ए. शांति कुमारी को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1989 बैच की अधिकारी, सुश्री शांति कुमारी नए राज्य में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला होंगी।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 जनवरी 2023

### प्रश्न-7

मैक्स लाइफ में अतिरिक्त 7% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए , किस निम्नलिखित बैंकने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ संशोधित समझौता किया है?

- A) एक्सिस बैंक
- B) HDFC बैंक
- C) ICICI बैंक
- D) यस बैंक

**सही उत्तर: A**

एक्सिस बैंक ने कहा कि उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त सात प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ संशोधित समझौता किया है।

### प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है?

- A) भारतपे
- B) पेटीएम
- C) PayU
- D) फोनपे

**सही उत्तर: A**

फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है , जो ओपन, इंफीबीम, केशफ्री, पेयशार्प और वर्ल्डलाइन इंपेमेंट्स जैसे फिनटेक प्लेटफार्मों में शामिल हो गया है , जिनके पास पहले से ही ऐसी मंजूरी है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 22 जनवरी 2023

### प्रश्न-9

निम्नलिखित देश के किस देश में पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाई जाएगी?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) कनाडा
- C) जर्मनी
- D) UK

**सही उत्तर: A**

पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियासरकार के बयान के अनुसार पब्लिक स्कूलों के लिए पंजाबी पाठ्यक्रम का विकास इस साल शुरू होगा और प्री-प्राइमरी से वर्ष 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से कौन 'जदुनामा' पुस्तक के लेखक हैं?

- A) अरविंद मंडलोई
- B) प्रखर कुमार
- C) रवि शर्मा
- D) शिखर गुप्ता

**सही उत्तर: A**

दिग्गज लेखक-गीतकार जावेद अख्तर के बारे में अरविंद मंडलोई की किताब जदुनामा हाल ही में जारी की गई थी। जदुनामा जावेद अख्तर की जीवन यात्रा की एक अनूठी झलक प्रदान करता है, जिसमें लेखक द्वारा उनके जीवन को नए तरीके से बताने की कोशिश की गई है।